

शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
Directorate of Education, GNCT of Delhi

Suggestive Answers

Class- 12

Subject - Political Science

Term-2 (Session-2021-2022)

प्र.सं. Q.N.	अनुभाग- ए / Section-A	अंक Marks
1. उत्तर	<p>आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना किस वर्ष की गयी थी? इसकी स्थापना का क्या उद्देश्य था?</p> <p>आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में की गयी थी. इसका उद्देश्य आसियान के सदस्य देशों की सुरक्षा व विदेश नीतियों में तालमेल बनाना था.</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरह अलग है?</p> <p>1972 में चीन ने आर्थिक एकांतवास को समाप्त किया. आज चीन का उद्देश्य विदेश पूँजी और प्रद्यौगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त करना है.</p>	2
2. उत्तर	<p>गठबंधन सरकारों के उदय के कोई दो कारण लिखिए.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का कमजोर होना. ● क्षेत्रीय राजनितिक दलों का प्रादुर्भाव व सरकारों के निर्माण में बढ़ती भूमिका. 	2
3. उत्तर	<p>चुनाव आयोग को प्रारम्भ में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराना. ● चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना. ● मतदाता सूची बनाने में समस्याएं होना. ● साक्षरता का निम्न स्तर होना. 	2
4.	<p>भारत और मालदीव के बीच किन क्षेत्रों में सहयोग है? लिखिए.</p>	2

उत्तर	भारत में मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में सहायता की है.भारत -मालदीव ने 2020 में चार समझौते किये हैं. खेल व युवा मामलों पर भी दोनों देशों में सहयोग.	
5. उत्तर	मुंबई प्रतिरोध 2004 ने विश्व सामाजिक मंच का क्यों प्रतिरोध किया? अलोकतांत्रिक तौर-तरीकों तथा साम्राज्यवादी देशों और बड़े व्यापार के धन पर इसकी निर्भरता को उजागर करने के कारण.	2
6. उत्तर	बामसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बामसेफ शब्द का विस्तार कीजिये. 1978 में. Backward and Minority Communities Employees Federation.	2
7. उत्तर	1999 के सियटल में हुए विश्व व्यापार संगठन की मंत्रि स्तरीय बैठक का विरोध किस आधार पर किया गया? 1999 के सियटल में हुए विश्व व्यापार संगठन की मंत्रि स्तरीय बैठक का विरोध का मुख्य कारण आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित तरीकों का विरोध करना था.	2
8. उत्तर	आपके विचार में वैश्वीकरण विकासशील देशों के लिए किस प्रकार लाभप्रद रहा है? तर्कसहित उत्तर दीजिये. विद्यार्थी स्वविवेक से उत्तर देंगे.	2
अनुभाग - बी / Section- B		
9. उत्तर	पार्टी के भीतर गठबंधन के भारतीय राजनीति में कुछ उदाहरण लिखिए. <ul style="list-style-type: none"> ● प्रथम आम चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में दिखाई दी थी. ● वर्तमान में भी विभिन्न पार्टियों के बीच आंतरिक गठबंधन दिखायी देता है जहाँ भारतीय लोकतंत्र के हित में अलग-अलग विचारधाराओं को मानने वाले दल आम सहमति के मुद्दों पर मिली जुली सरकार बनाते हैं. परन्तु अपनी नीतियां नहीं बदलते हैं. 	4
10. उत्तर	मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू करने के क्या परिणाम हुए? <ul style="list-style-type: none"> ● उत्तर भारत में हिंसक प्रदर्शन हुए. जिसमें छात्रों द्वारा हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, सरकारी संपत्ति के नुकसान आदि शामिल है. ● बेरोजगार युवाओं व छात्रों द्वारा आत्महत्या की गयी थीं. ● इसे समानता के सिद्धान्त के खिलाफ माना गया. 	4

<p>11.</p> <p>उत्तर</p>	<p>नीचे दिये गए मानचित्र में ए, बी, सी और डी से चार देश दर्शाये गए हैं। दी गयी जानकारी के आधार पर इन देशों की पहचान कीजिए और अपनी उत्तरपुस्तिका में निम्नलिखित तालिका के रूप में लिखिए।</p> <table border="1" data-bbox="321 373 1317 793"> <thead> <tr> <th>क्रम संख्या</th> <th>संबन्धित अक्षर</th> <th>देश का नाम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>C</td> <td>श्रीलंका</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>D</td> <td>बांग्लादेश</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>A</td> <td>नेपाल</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>B</td> <td>भूटान</td> </tr> </tbody> </table>	क्रम संख्या	संबन्धित अक्षर	देश का नाम	1	C	श्रीलंका	2	D	बांग्लादेश	3	A	नेपाल	4	B	भूटान	<p>4x1=4</p>
क्रम संख्या	संबन्धित अक्षर	देश का नाम															
1	C	श्रीलंका															
2	D	बांग्लादेश															
3	A	नेपाल															
4	B	भूटान															
<p>अनुभाग - सी / Section- C</p>																	
<p>12.</p> <p>उत्तर</p> <p>उत्तर</p>	<p>चीन की आर्थिक नीतियों के नकारात्मक प्रभावों की व्याख्या कीजिये.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● चीन में बेरोजगारी में वृद्धि हुई है. और लगभग 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में हैं. ● महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात खराब हैं. ● पर्यावरण को नुकसान हुआ है. ● भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है. ● अमीर और गरीब के बीच फासले में वृद्धि हुई है. <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>भारत में दक्षिणपंथी द्वारा वैश्वीकरण की आलोचना किन आधारों पर की जाती है? वर्णन कीजिये.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● दक्षिणपंथी राजनितिक क्षेत्र में राज्य की भूमिका में वृद्धि करने का समर्थन करते हैं. ● आर्थिक क्षेत्र में दक्षिणपंथी संरक्षणवाद का समर्थन करते हैं. ● सांस्कृतिक क्षेत्र में दक्षिणपंथी अपनी संस्कृति की सुरक्षा का समर्थन करते हैं. 	<p>6</p>															

13	<p>आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में क्यों देखा जाता है? विश्लेषण कीजिये.</p>	6
उत्तर	<p>आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में देखे जाने के कारण निम्नलिखित हैं-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● मौलिक अधिकारों का स्थगन किया गया. ● प्रेस सेंसरशिप को लागू किया गया. ● अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर रोक लगा दी गयी थी. ● सरकार द्वारा नसबंदी कार्यक्रम चलाया गया था. ● विपक्षी नेताओं की गिराफ्तारी की गयी थी. ● पुलिस अधिकारियों व नौकरशाही द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग किया गया था. <p style="text-align: center;">अथवा</p>	
उत्तर	<p>स्वतंत्रता के बाद से भारतीय राजनीति में दलीय व्यवस्था की कौन सी मुख्य प्रवर्तियां दिखायी देती हैं? अपने विचार व्यक्त कीजिये.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● स्वतन्त्रता के बाद प्रारम्भिक दशकों में परिस्थितियों के वश एक पार्टी का शासन रहा. ● आपातकाल के बाद दूसरी पार्टी का सत्ता में उभार हुआ. ● 1989 से केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर प्रारम्भ हुआ. ● 2014 से पुनः एक दल को बहुमत मिला लेकिन इन्होंने भी गठबंधन सरकार बनायी. इसे एक 'अतिरिक्त बहुमत गठबंधन भी कहा गया. इस अर्थ में गठबंधन की राजनीति की प्रकृति में एक बड़ा परिवर्तन देखा गया जो एक दलीय नेतृत्वशील गठबंधन के स्थान पर एक दलीय प्रभुत्वशील गठबंधन के रूप में दृष्टिगत होता है. 	
